

प्रेस नोट दिनांक -01.09.2021

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 28.08.2021 को थाना वैदपुरा क्षेत्र में युवती के शव मिलने की घटना का सफल अनावरण करते हुए, हत्यारोपी माँ को गिरफ्तार किया गया ।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में एसओजी इटावा ,थाना वैदपुरा पुलिस,थाना सैफई पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए द्वारा दिनांक 28.08.2021 को थाना वैदपुरा क्षेत्र में युवती के शव मिलने की घटना का सफल अनावरण करते हुए, हत्यारोपी माँ को गिरफ्तार किया गया ।

घटना का सफल अनावरण-

दिनांक 28.08.2021 को डायल-112 के माध्यम से रविबाबू पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम उमराई द्वारा सूचना दी कि मेरी भतीजी ने छत के कुन्डे से फाँसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों एवं थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया एवं घटना स्थल का निरीक्षण किया गया । दिनांक 29.08.2021 को मृतका के पिता अनिल कुमार पुत्र दीनानाथ ने लिखित तहरीर दी कि उनकी पुत्री को हमारे गांव के राजकुमार व उसके अन्य साथियों द्वारा उसकी हत्या कर शव को फाँसी के फंदे पर लटका दिया था । वादी की तहरीर के आधार पर थाना वैदपुरा पर मु0अ0स0 93/21 धारा 302 भादवि बनाम राजकुमार आदि अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

उक्त घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में एसओजी इटावा,थाना वैदपुरा,थाना सैफई से 03 पुलिस टीम गठित की गयी । पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में संकलित साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका प्रियंका की गला दबाकर हत्या उसकी माँ निर्मला देवी द्वारा की गयी है जिसे आज दिनांक 01.09.2021 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर महोला जेल रोड रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया ।

पुलिस पूछताछ -

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्ता निर्मला द्वारा अपनी बेटी की हत्या करने का कारण बताया कि उसकी पुत्री का गांव के राजकुमार से प्रेमप्रसंग चल रहा था । जिसका हम सभी परिवारीजनों ने इसका विरोध किया और अपनी पुत्री मृतका प्रियंका को बहुत बार समझाया भी । दिनांक 28.08.2021 को अभियुक्ता निर्मला देवी व उसकी छोटी पुत्री इटावा से दवा लेकर घर लौटे तो मृतका प्रियंका अपनी मांग में सिन्दूर भर रही थी । जिसका विरोध अभियुक्ता द्वारा किया गया इसी दौरान गिरफ्तार अभियुक्ता द्वारा गुस्से में आकर मृतका प्रियंका को धक्का देकर बेड पर गिरा कर उसका गला दबा दिया था जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी । गिरफ्तार अभियुक्ता द्वारा अपने इस कृत्य को छुपाने एवं पुलिस से बचने के लिए मृतका के प्रेमी राजकुमार द्वारा उसकी पुत्री की हत्या कर फाँसी पर लटकाने षडयंत्र रचकर उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. निर्मला देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी ग्राम उमराई थाना वैदपुरा

पुलिस टीम- प्रथम टीम- निरी0 श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी एसओजी इटावा मय टीम , उ0नि0 श्री बेचन प्रभारी सर्विलांस इटावा मय टीम

द्वितीय टीम- उ0नि0 श्री बृजेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष वैदपुरा मय टीम

तृतीय टीम- निरी0 श्री हमीद सिद्धकी प्रभारी निरीक्षक थाना सैफई मय टीम

**सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा**

